



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1937 (श10)
(सं0 पटना 925) पटना, शुक्रवार, 14 अगस्त 2015

सं० आई0सी0डी0एस0 / 10035 / 06-2012-715
समाज कल्याण विभाग

संकल्प

12 फरवरी 2015

विषय:- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-01/1990 तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा से आई.सी. डी.एस. निदेशालय में अनुशासित तथा वर्ष 2004 से संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत सांख्यिकी सहायकों को एक ही कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ही पद पर कार्यरत कर्मियों की भौति एवं उक्त विज्ञापन से अन्य विभागों में नियुक्त कर्मियों के अनुरूप नियमित वेतनमान रु. 5000-8000/- एवं दिनांक 01.01.2006 से 9300-34800 ग्रेड पे- 4200/- में आर्थिक लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति।

समेकित बाल विकास सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना पर होने वाले प्रशासनिक व्यय का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पदों का सृजन भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना अंतर्गत मुख्यालय, जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय बाल विकास परियोजना कार्यालयों में सांख्यिकी सहायकों के अतिरिक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, लेखापाल-सह-भंडारपाल, लिपिक-सह-टंकक, अनुसेवक एवं चालक का पद नियमित वेतनमान में स्वीकृत एवं सृजित है जिस पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्ति की जाती रही है।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 956 दिनांक 25.01.1990 के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना के द्वारा विज्ञापन संख्या 01/1990 से तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित की गयी।

3. बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/1990 में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर के पदों की संभावित उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें वेतनमान 1600-2780 रुपये, 1500-2750 रुपये, 1400-2600 रुपये, 1400-2300 रुपये विज्ञापित था।

4. बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद के विघटन के पश्चात् बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या- 01/90) का प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा वर्ष 1995 में आयोजित की गई थी।

5. इस विज्ञापन के क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक सं०-7/च.प.-4019/94 का 4630 दिनांक 16 जून 1995 द्वारा सभी विभागों को निदेशित किया गया था कि "विज्ञापन संख्या - 01/90 जो तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है, के लिए दिनांक 01.01.1990 से 31.12.1993 तक की रिक्तियों को इस प्रतियोगिता परीक्षा से भरने का निर्णय लिया गया है तथा दिनांक 01.01.1990 से दिनांक 31.12.1993 तक की अवधि की रिक्तियों का रोस्टर विलयरेन्स कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से किये जाने के बाद अध्याचना (जिसमें इस बात का उल्लेख रहे कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से रोस्टर विलयरेन्स करा लिया गया है) 15 दिनों के अन्दर बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाय।"

6. विभिन्न विभागों से अनुमान्य रिक्तियों रोस्टर के अनुरूप वेतनमान में बिहार लोक सेवा आयोग को अध्याचित की गयी परन्तु मात्र कल्याण विभाग के पत्रांक 686 दिनांक 20.04.2000 द्वारा बाल विकास परियोजना अंतर्गत रिक्त सांख्यिकी सहायकों के कुल 75 अस्थायी पदों के संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए रोस्टर के अनुरूप भेजी गयी। कल्याण विभाग द्वारा भेजी गयी अध्याचना रोस्टर संबंधी नियम का अनुपालन किये बिना तथा सक्षम विभाग से बिना सहमति के बिहार लोक सेवा आयोग (बिहार राज्य अवर सेवा चयन परिषद) को विज्ञापन में निहित प्रावधानों के विरुद्ध संविदा के आधार पर अध्याचना (रिक्तियों) भेजी गयी।

7. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के पश्चात् विभिन्न विभागों में वेतनमान में नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी गयी। तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा का वर्ष 1996 से वर्ष 2010 तक कुल छः चरणों में परीक्षा-फल प्रकाशित करते हुए समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त सभी विभागों में नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा भेजी गयी है। कालान्तर में वर्ष 2003 में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 215 दिनांक 04.11.2003, पत्रांक 252 दिनांक 13.12.2003 एवं पत्रांक 423 दिनांक 08.04.2009 द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा संविदा पर आई.सी.डी.एस. निदेशालय (कल्याण विभाग वर्तमान में समाज कल्याण विभाग) में भेजी गयी। उक्त के आलोक में निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 2184 दिनांक 08.11.2004 से कुल 27 (सताईस), 2579 दिनांक 10.12.2004 से कुल 01 (एक) एवं पत्रांक 92(मु०) दिनांक 02.12.2009 से कुल 06 (छः) संविदा पर सांख्यिकी सहायक नियुक्त होकर वर्तमान में कार्यरत है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 34 (चौतीस) सांख्यिकी सहायक आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित एवं कार्यरत है **(पदस्थापित एवं कार्यरत सांख्यिकी सहायकों की सूची संलग्न)।**

8. समाज कल्याण विभाग आई.सी.डी.एस. निदेशालय अंतर्गत संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी सहायकों को वेतनमान में लाभ प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 128/2008 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2009 में नियुक्ति की तिथि से नियमित करते हुए वित्तीय लाभ याचिका दायर करने की तिथि से प्रदान करने का न्यायादेश पारित किया गया। उक्त सी०डब्लू०जे०सी० में पारित न्यायादेश के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग द्वारा एल०पी०ए० संख्या 630/2010 दायर किया गया, जिसमें आदेश पारित किया गया कि "Whenever the post hold by the petitioner is made permanent, the petitioner shall be deemed to be to have been regularly appointed from that date."

9. आई.सी.डी.एस. निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) अंतर्गत स्वीकृत पदों के संबंध में भारत सरकार के पत्रांक 6-II/75 सी०डी० दिनांक 01.08.1975 के कंडिका 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "All the personnel under ICDS scheme should be borne on the respective cadre of the state government and therefore these posts should be sanctioned in the appropriate scale of the State Government."

10. आई.सी.डी.एस. निदेशालय अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी सहायकों द्वारा लगातार नियमितीकरण एवं नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान करने का अनुरोध सभी स्तरों पर, की जाती रही। बिहार मुकदमा नीति 2011 के तहत विभागीय शिकायत निवारण समिति द्वारा इसकी समीक्षा हर पहलू पर करते हुए इस मामले में दिनांक 30.08.2013 को निर्णय लिया गया कि "आई.सी.डी.एस. निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा (बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित) से संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी सहायकों के नियमित वेतनमान से संबंधित संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित की जाय। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि इस बिन्दु पर प्रशासी विभाग अभिमत गठन करे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा वर्ष 2004 से संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी सहायकों को वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे- 4200/- के रिक्त पद पर नियमित करने का प्रस्ताव दिया गया है। तदोपरान्त विभागीय शिकायत निवारण समिति द्वारा दिनांक 16.01.2014 को निर्णय लिया गया कि "विचारोपरान्त एवं समीक्षोपरान्त आई.सी.डी.एस. निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी सहायकों को उक्त वेतनमान में नियमित करने हेतु निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी एवं संबंधित संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।"

11. समाज कल्याण विभाग अंतर्गत आई.सी.डी.एस. निदेशालय अधीन मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा से (नियत वेतन 7000/- प्रतिमाह) सांख्यिकी सहायकों को वर्तमान में धारित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे- 4200/- में नियमित वेतनमान में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध किया जाना है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग के तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 01/1990) से उत्तीर्ण एक ही मेधा सूची (पैनल) से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को अन्य विभाग में नियमित वेतनमान पर नियुक्त किया गया है और आई.सी.डी.एस. निदेशालय अधीन संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी

सहायकों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। जबकि सांख्यिकी सहायकों की नियुक्ति संविदा पर उन्हीं सभी प्रक्रियाओं को अनुपालन करते हुए किया गया है जो नियमित वेतनमान में नियुक्त सांख्यिकी सहायकों एवं उक्त विज्ञापन से सभी पर्यवेक्षीय पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति में की गयी है।

12. आई.सी.डी.एस. निदेशालय में पूर्व से नियुक्त सांख्यिकी सहायकों जिनका वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे-4200/- पर कार्यरत है तथा इस निदेशालय अंतर्गत स्वीकृत एवं सृजित अन्य पद यथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लेखापाल सह भंडारपाल, महिला पर्यवेक्षिका, लिपिक, लिपिक सह टंकक, अनुसेवक, चालक आदि सभी पद नियमित वेतनमान का है जिसपर कर्मी कार्यरत/पदस्थापित है। यहाँ तक कि अन्य विभागों यथा जन शिक्षा निदेशालय के औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के छंटनीग्रस्त कर्मियों, सहकारिता विभाग के पैक्स पद पर नियुक्त, बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद (विघटित) के छंटनीग्रस्त कर्मियों का समायोजन आई.सी.डी.एस. निदेशालय अंतर्गत किया गया है। आई.सी.डी.एस. निदेशालय अंतर्गत मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में बोर्ड/निगम के प्रतिनियुक्त कर्मियों का समायोजन किया गया है।

13. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या- 01/1990 तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा से आई.सी.डी.एस. निदेशालय में अनुशंसित तथा वर्ष 2004 से संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत सांख्यिकी सहायकों को एक ही कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ही पद पर कार्यरत कर्मियों की भाँति एवं उक्त विज्ञापन से अन्य विभागों में नियुक्त कर्मियों के अनुरूप नियमित वेतनमान रु. 5000-8000/- एवं दिनांक 01.01.2006 से 9300-34800 ग्रेड पे-4200/- दिये जाने तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 के आलोक में दिनांक 01.04.2007 से वास्तविक भुगतान किये जाने के संबंध में स्वीकृति दी जाती है।

14. कड़िका-13 के संबंध में संचिका सं0-ICDS/10035/06-2012 के पृष्ठ संख्या 70/टि0 पर दिनांक 06.01.2015 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व संधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमरनाथ मिश्र,
सरकार के अपर सचिव।

विज्ञापन संख्या-01/1990 (तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा) एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 215 दिनांक 04.11.2003, पत्रांक 252 दिनांक 13.12.2003 एवं पत्रांक 423 दिनांक 08.04.2009 से अनुशंसित एवं आई.सी.डी.एस. निदेशालय में संविदा पर नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत सांख्यिकी सहायकों की सूची:-

| क्र. सं. | सांख्यिकी सहायक का नाम | अनुक्रमांक | जन्म तिथि | नियुक्ति का पत्रांक/दिनांक |
|----------|----------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 1. | श्री सुनील कुमार सिंह | 147865 | 01.01.1963 | 2184/08.11.2004 |
| 2. | श्री अरविन्द कुमार | 29384 | 26.06.1967 | 2184/08.11.2004 |
| 3. | श्री संजय कुमार सिन्हा | 78349 | 20.01.1967 | 2184/08.11.2004 |
| 4. | श्री अमरेश कुमार सिंह | 80316 | 02.02.1967 | 2184/08.11.2004 |
| 5. | श्री विश्वजीत कुमार सुमन | 70219 | 12.01.1968 | 2184/08.11.2004 |
| 6. | श्री प्रमोद कुमार सिन्हा | 99636 | 28.01.1964 | 2184/08.11.2004 |
| 7. | श्री गिरजापति नाथ सिन्हा | 23530 | 31.07.1964 | 2184/08.11.2004 |
| 8. | श्री अरविन्द प्रसाद | 39495 | 20.01.1965 | 2184/08.11.2004 |
| 9. | श्री प्रभु प्रसाद यादव | 183107 | 21.08.1965 | 2184/08.11.2004 |
| 10. | श्री शैलेन्द्र कुमार दास | 77288 | 14.03.1966 | 2184/08.11.2004 |
| 11. | श्री अजय कुमार मिश्रा | 102090 | 10.12.1970 | 2184/08.11.2004 |
| 12. | श्री अरुण कुमार कर्ण | 157643 | 04.03.1960 | 2184/08.11.2004 |
| 13. | श्री राजीव रंजन श्रीवास्तव | 193544 | 27.07.1966 | 2184/08.11.2004 |
| 14. | श्री अलिन्द | 83717 | 31.05.1964 | 2184/08.11.2004 |
| 15. | श्री अजय कुमार | 42884 | 02.10.1965 | 2184/08.11.2004 |
| 16. | श्री रामाशंकर विश्वकर्मा | 67515 | 15.07.1969 | 2184/08.11.2004 |
| 17. | श्री गंगा शरण मेहता | 183407 | 20.07.1969 | 2184/08.11.2004 |
| 18. | श्री शिवशरण कुमार भगत | 156157 | 01.01.1970 | 2184/08.11.2004 |
| 19. | श्री राज मोहन साह | 65917 | 12.02.1965 | 2579/10.12.2004 |
| 20. | श्री अमीर हुसैन | 182465 | 22.12.1967 | 2184/08.11.2004 |
| 21. | श्री विन्देश्वर सिंह | 177770 | 15.05.1963 | 2184/08.11.2004 |
| 22. | श्री राज कुमार | 72663 | 08.08.1966 | 2184/08.11.2004 |

| | | | | |
|----|-------------------------|--------|------------|----------------------|
| 23 | श्री लाल बहादुर बैठा | 187142 | 12.06.1968 | 2184 / 08.11.2004 |
| 24 | श्री देवदास | 78942 | 04.01.1962 | 2184 / 08.11.2004 |
| 25 | श्री बालेश्वर राम | 18510 | 10.01.1967 | 2184 / 08.11.2004 |
| 26 | श्री गया राम | 79001 | 19.12.1957 | 2184 / 08.11.2004 |
| 27 | श्री पवन कुमार दास | 113710 | 02.04.1963 | 2184 / 08.11.2004 |
| 28 | श्री राम जतन रजक | 161849 | 12.01.1965 | 2184 / 08.11.2004 |
| 29 | श्री धीरेन्द्र कुमार झा | 69339 | 18.06.1964 | 92(मु0) / 02.12.2009 |
| 30 | श्री विनोद कुमार सिंह | 121696 | 01.02.1966 | 92(मु0) / 02.12.2009 |
| 31 | श्री राजेश कुमार | 44440 | 31.05.1967 | 92(मु0) / 02.12.2009 |
| 32 | श्री मनोज कुमार गुप्ता | 48612 | 22.03.1969 | 92(मु0) / 02.12.2009 |
| 33 | श्री प्रेम प्रकाश केसरी | 75504 | 05.12.1959 | 92(मु0) / 02.12.2009 |
| 34 | श्री उत्तम कुमार | 69157 | 12.12.1966 | 92(मु0) / 02.12.2009 |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमरनाथ मिश्र,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 925-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>